

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 478]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2018 — अग्रहायण 21, शक 1940

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2018

क्रमांक 24ए/चार/निर्वा.परि./वि.स.घु./2018/8346 : भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 308/पूर्व अनु0-1/ छ.ग.-वि.स./2018 दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 विधानसभा आम निर्वाचन-2018 हेतु राज्य के समस्त 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये निर्वाचित अभ्यर्थियों संबंधी अधिसूचना का राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

हस्ता./-

(सुब्रत साहू)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 12 दिसम्बर, 2018 — 21 अग्रहायण, 1940 (शक)

अधिसूचना

सं० 308/पूर्व अनु०-1/छ०ग०-वि.स./2018 :- यतः छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन अपनी अधिसूचना संख्या 08/चार/वि.स.चु./2018 दिनांक 16 अक्तूबर, 2018 एवं 08/चार/वि.स.चु./2018 दिनांक 26 अक्तूबर, 2018 को जारी की गई थी, के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन हेतु साधारण निर्वाचन कराया गया; और

यतः उक्त साधारण निर्वाचन में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचनों का परिणाम संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा घोषित कर दिया गया है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 73 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम, उनके सम्बद्ध दल सहित यदि कोई हो, इस अधिसूचना की अनुसूची में एतद्वारा अधिसूचित करता है।

अनुसूची

(भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 308/पूर्व अनु.1/छ.ग.-वि.स./2018)

राज्य का नाम -छत्तीसगढ़

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1-भरतपुर-सोनहट (अ.ज.जा.)	गुलाब कमरो	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2-मनेन्द्रगढ़	डॉ. विनय जायसवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3-बैकुण्ठपुर	अम्बिका सिंह देव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4-प्रेमनगर	खेल साय सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5-भटगांव	पारस नाथ राजवाड़े	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6-प्रतापपुर (अ.ज.जा.)	डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7-रामानुजगंज (अ.ज.जा.)	बृहस्पत सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8-सामरी (अ.ज.जा.)	चिन्तामणि महाराज	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9-लुण्ड्रा (अ.ज.जा.)	डॉ. प्रीतम राम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10-अम्बिकापुर	टी.एस.बाबा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11-सीतापुर (अ.ज.जा.)	अमरजीत भगत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12-जशपुर (अ.ज.जा.)	विनय कुमार भगत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13-कुनकुरी (अ.ज.जा.)	यू.डी. मिंज	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14-पत्थलगांव (अ.ज.जा.)	रामपुकार सिंह ठाकुर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15-लैलूंगा (अ.ज.जा.)	चक्रधर सिंह सिदार	इंडियन नेशनल कांग्रेस

16-रायगढ़	प्रकाश शक्राजीत नायक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
17-सारंगढ़ (अ.जा.)	उत्तरी गनपत जांगड़े	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18-खरसिया	उमेश पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
19-धर्मजयगढ़ (अ.ज.जा.)	लालजीत सिंह राठिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
20-रामपुर (अ.ज.जा.)	ननकी राम कंवर	भारतीय जनता पार्टी
21-कोरबा	जयसिंह अग्रवाल (जयसिंह भैया)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
22-कटघोरा	पुरुषोत्तम कंवर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
23-पाली-तानाखार (अ.ज.जा.)	मोहित राम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
24-मरवाही (अ.ज.जा.)	अजीत जोगी	जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)
25-कोटा	रेणु अजीत जोगी	जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)
26-लोरमी	धर्मजीत सिंह	जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)
27-मुंगेली (अ.जा.)	पुन्नूलाल मोहले	भारतीय जनता पार्टी
28-तखतपुर	रश्मि आशिष सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
29-बिल्हा	धरम लाल कौशिक	भारतीय जनता पार्टी
30-बिलासपुर	शैलेश पांडे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
31-बेलतरा	रजनीश कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
32-मस्तूरी (अ.जा.)	डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी	भारतीय जनता पार्टी
33-अकलतरा	सौरभ सिंह	भारतीय जनता पार्टी
34-जांजगीर -चांपा	नारायण चंदेल	भारतीय जनता पार्टी
35-सक्ती	चरणदास महंत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
36-चन्द्रपुर	रामकुमार यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
37-जैजैपुर	केशव प्रसाद चंद्रा	बहुजन समाज पार्टी

38-पामगढ़ (अ.जा.)	इंदू बंजारे	बहुजन समाज पार्टी
39-सराईपाली (अ.जा.)	किस्मत लाल नन्द	इंडियन नेशनल कांग्रेस
40-बसना	देवेन्द्र बहादुर सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
41-खल्लारी	द्वारिकाधीश यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
42-महासमुन्द	विनोद सेवन लाल चन्द्राकर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
43-बिलाईगढ़ (अ.जा.)	चन्द्रदेव प्रसाद राय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
44-कसडोल	शकुन्तला साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
45-बलोदा बाजार	प्रमोद कुमार शर्मा	जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)
46-भाटापारा	शिवरतन शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
47-धरसीवा	अनिता योगेन्द्र शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
48-रायपुर ग्रामीण	सत्यनारायण शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
49-रायपुर नगर पश्चिम	विकास उपाध्याय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
50-रायपुर नगर उत्तर	कुलदीप जुनेजा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
51-रायपुर नगर दक्षिण	बृजमोहन अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
52-आरंग (अ.जा.)	डॉ. शिवकुमार डहरिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
53-अभनपुर	धनेन्द्र साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
54-राजिम	अमितेश शुक्ल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
55-बिन्दानवागढ़ (अ.ज.जा.)	डमरूधर पुजारी	भारतीय जनता पार्टी
56-सिहावा (अ.ज.जा.)	डॉ. लक्ष्मी ध्रुव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
57-कुरुद	अजय चन्द्राकर	भारतीय जनता पार्टी
58-धमतरी	रंजना डीपेन्द्र साहू	भारतीय जनता पार्टी
59-संजारी बालोद	संगीता सिन्हा	इंडियन नेशनल कांग्रेस

60-डोंडी लोहारा (अ.ज.जा.)	अनिता भेंडिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
61-गुन्डरदेही	कुंवरसिंह निषाद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
62-पाटन	भूपेश बघेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
63-दुर्ग ग्रामीण	ताम्रध्वज साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
64-दुर्ग शहर	अरुण वोरा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
65-भिलाई नगर	देवेन्द्र यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
66-वैशाली नगर	विद्यारतन भसीन	भारतीय जनता पार्टी
67-अहिवारा (अ.जा.)	गुरु रुद्र कुमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
68-साजा	रविन्द्र चौबे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
69-बेमेतरा	आशीष कुमार छाबड़ा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
70-नवागढ़ (अ.जा.)	गुरुदयाल सिंह बंजारे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
71-पंडरिया	ममता चन्द्राकर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
72-कवर्धा	अकबर भाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
73-खैरागढ़	देवव्रत सिंह	जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)
74-डोंगरगढ़ (अ.जा.)	भुनेश्वर शोभाराम बघेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
75-राजनांदगांव	डॉ. रमन सिंह	भारतीय जनता पार्टी
76-डोंगरगांव	दलेश्वर साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
77-खुज्जी	छन्नी चंदू साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
78-मोहला-मानपुर (अ.ज.जा.)	इन्द्रशाह मंडावी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
79-अंतागढ़ (अ.ज.जा.)	अनूप नाग	इंडियन नेशनल कांग्रेस
80-भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.)	मनोज सिंह मण्डावी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
81-काँकेर (अ.ज.जा.)	शिशुपाल सोरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

82-केशकाल (अ.ज.जा.)	संत राम नेताम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
83-कोन्डागांव (अ.ज.जा.)	मोहन मरकाम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
84-नारायणपुर (अ.ज.जा.)	चंदन कश्यप	इंडियन नेशनल कांग्रेस
85-बस्तर (अ.ज.जा.)	बघेल लखेश्वर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
86-जगदलपुर	रेखचन्द जैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
87-चित्रकोट (अ.ज.जा.)	दीपक बैज	इंडियन नेशनल कांग्रेस
88-दन्तेवाड़ा (अ.ज.जा.)	भीमा मण्डावी	भारतीय जनता पार्टी
89-बीजापुर (अ.ज.जा.)	विक्रम मण्डावी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
90-कोन्टा (अ.ज.जा.)	कवासी लखमा	इंडियन नेशनल कांग्रेस

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 12th December, 2018 — 21 Agrahayana, 1940 (Saka)

NOTIFICATION

No. 308/ES-1/CG-LA/2018: - Whereas, in pursuance of Notification numbers 08/04/V.S.E./2018 dated 16th October, 2018 and, 08/04/V.S.E./2018 dated 26th October, 2018 issued by the Governor of the State of Chhattisgarh under sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951), a General Election has been held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly for the State of Chhattisgarh; and

Whereas, the results of the elections in all Assembly Constituencies in the said General Election, have been declared by the Returning Officers concerned;

Now, therefore, in pursuance of Section 73 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby notifies the names of the members elected for those Assembly Constituencies, along with their party affiliations, if any, in the SCHEDULE of this Notification.

SCHEDULE

(SCHEDULE OF NOTIFICATION No. 308/ES-1/CG-LA/2018 dated 12th December, 2018
of Election Commission of India)

Name of the State- Chhattisgarh

No and Name of Assembly Constituency	Name of Elected Member	Party Affiliation, if any
1-Bharatpur-Sonhat (ST)	Gulab Kamro	Indian National Congress
2-Manendragarh	Dr. Vinay Jaiswal	Indian National Congress
3-Baikunthpur	Ambica Singh Deo	Indian National Congress
4-Premnagar	Khel Sai Singh	Indian National Congress
5-Bhatgaon	Paras Nath Rajwade	Indian National Congress
6-Pratappur (ST)	Dr. Premsai Singh Tekam	Indian National Congress
7-Ramanujganj (ST)	Brihaspat Singh	Indian National Congress
8-Samri (ST)	Chintamani Mahraj	Indian National Congress
9-Lundra (ST)	Dr. Pritam Ram	Indian National Congress
10-Ambikapur	T. S. Baba	Indian National Congress
11-Sitapur (ST)	Amarjeet Bhagat	Indian National Congress
12-Jashpur (ST)	Vinay Kumar Bhagat	Indian National Congress
13-Kunkuri (ST)	U. D. Minj	Indian National Congress
14-Pathalgaon (ST)	Rampukar Singh Thakur	Indian National Congress
15-Lailunga (ST)	Chakradhar Singh Sidar	Indian National Congress
16-Raigarh	Prakash Shakrajeet Naik	Indian National Congress
17-Sarangarh (SC)	Uttari Ganpat Jangde	Indian National Congress
18-Kharsia	Umesh Patel	Indian National Congress
19-Dharamjaigarh (ST)	Laljeet Singh Rathia	Indian National Congress
20-Rampur (ST)	Nanki Ram Kanwar	Bharatiya Janta Party

21-Korba	Jaisingh Agrawal (Jaisingh Bhaiya)	Indian National Congress
22-Katghora	Purushottam Kanwar	Indian National Congress
23-Pali-Thanakhar (ST)	Mohit Ram	Indian National Congress
24-Marwahi (ST)	Ajit Jogi	Janta Congress Chhattisgarh (J)
25-Kota	Renu Ajit Jogi	Janta Congress Chhattisgarh (J)
26-Lormi	Dharmjeet Singh	Janta Congress Chhattisgarh (J)
27-Mungeli (SC)	Punnulal Mohale	Bharatiya Janta Party
28-Takhatpur	Rashmi Ashish Singh	Indian National Congress
29-Bilha	Dharam Lal Kaushik	Bharatiya Janta Party
30-Bilaspur	Shailesh Pandey	Indian National Congress
31-Beltara	Rajnish Kumar Singh	Bharatiya Janta Party
32-Masturi (SC)	Dr. Krishna Murti Bandhi	Bharatiya Janta Party
33-Akaltara	Saurabh Singh	Bharatiya Janta Party
34-Janjgir-Champa	Narayan Chandel	Bharatiya Janta Party
35-Sakti	Charan Das Mahant	Indian National Congress
36-Chandrapur	Ram Kumar Yadav	Indian National Congress
37-Jaijaipur	Keshav Prasad Chandra	Bahujan Samaj Party
38-Pamgarh (SC)	Indu Banjare	Bahujan Samaj Party
39-Saraipali (SC)	Kismat Lal Nand	Indian National Congress
40-Basna	Devendra Bahadur Singh	Indian National Congress
41-Khallari	Dwarikadhish Yadav	Indian National Congress
42-Mahasamund	Vinod Sevan Lal Chandrakar	Indian National Congress
43-Bilaigarh (SC)	Chandradev Prasad Rai	Indian National Congress
44-Kasdol	Shakuntala Sahu	Indian National Congress
45-Baloda Bazar	Pramod Kumar Sharma	Janta Congress Chhattisgarh (J)

46-Bhatapara	Shivratan Sharma	Bharatiya Janta Party
47-Dharsiwa	Anita Yogendra Sharma	Indian National Congress
48-Raipur Rural	Satyanarayan Sharma	Indian National Congress
49-Raipur City West	Vikash Upadhyay	Indian National Congress
50-Raipur City North	Kuldeep Juneja	Indian National Congress
51-Raipur City South	Brijmohan Agrawal	Bharatiya Janta Party
52-Arang (SC)	Dr. Shivkumar Dahariya	Indian National Congress
53-Abhanpur	Dhanendra Sahu	Indian National Congress
54-Rajim	Amitesh Shukla	Indian National Congress
55-Bindranawagarh (ST)	Damarudhar Pujari	Bharatiya Janta Party
56-Sihawa (ST)	Dr. Lakshmi Dhruw	Indian National Congress
57-Kurud	Ajay Chandrakar	Bharatiya Janta Party
58-Dhamtari	Ranjana Dipendra Sahu	Bharatiya Janta Party
59-Sanjari Balod	Sangeeta Sinha	Indian National Congress
60-Dondi Lohara (ST)	Anila Bhendia	Indian National Congress
61-Gunderdehi	Kunwer Singh Nishad	Indian National Congress
62-Patan	Bhupesh Baghel	Indian National Congress
63-Durg Rural	Tamradhwaj Sahu	Indian National Congress
64-Durg City	Arun Vora	Indian National Congress
65-Bhilai Nagar	Devendra Yadav	Indian National Congress
66-Vaishali Nagar	Vidya Ratan Bhasin	Bharatiya Janta Party
67-Ahiwara (SC)	Guru Rudra Kumar	Indian National Congress
68-Saja	Ravindra Chaube	Indian National Congress
69-Bemetara	Ashish Kumar Chhabra	Indian National Congress
70-Nawagarh (SC)	Gurudayal Singh Banjare	Indian National Congress

71-Pandariya	Mamta Chandrakar	Indian National Congress
72-Kawardha	Akbar Bhai	Indian National Congress
73-Khairagarh	Devwrat Singh	Janta Congress Chhattisgarh (J)
74-Dongargarh (SC)	Bhuneshwar Shobaram Baghel	Indian National Congress
75-Rajnandgaon	Dr. Raman Singh	Bharatiya Janta Party
76-Dongargaon	Daleshwar Sahu	Indian National Congress
77-Khujji	Chhanni Chandu Sahu	Indian National Congress
78-Mohla-Manpur (ST)	Indrashah Mandavi	Indian National Congress
79-Antagarh (ST)	Anoop Nag	Indian National Congress
80-Bhanupratappur (ST)	Manoj Singh Mandavi	Indian National Congress
81-Kanker (ST)	Shishupal Shori	Indian National Congress
82-Keshkal (ST)	Sant Ram Netam	Indian National Congress
83-Kondagaon (ST)	Mohan Markam	Indian National Congress
84-Narayanpur (ST)	Chandan Kashyap	Indian National Congress
85-Bastar (ST)	Baghel Lakheshwar	Indian National Congress
86-Jagdarpur	Rekhchand Jain	Indian National Congress
87-Chitrakot (ST)	Deepak Bajj	Indian National Congress
88-Dantewada (ST)	Bhima Mandavi	Bharatiya Janta Party
89-Bijapur (ST)	Vikram Mandavi	Indian National Congress
90-Konta (ST)	Kawasi Lakhma	Indian National Congress

By Order,

Sd/-

(Narendra N. Butolia)
Principal Secretary.